

22nd August, 2023

Ref:- GHL/2023-24/EXCH/48

The General Manager Dept. of Corporate Services BSE Limited, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654

Symbol: MEDANTA

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir(s),

Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements, in compliance with intimating that the 19th Annual General Meeting of the Company will be held on *Wednesday*, the 20th September, 2023 at 12 Noon (IST), through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM').

The said advertisements were published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on August 22, 2023.

The same is also available on website of the Company at https://www.medanta.org/investor-relation

You are requested to kindly take the same on record.

Yours faithfully

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer M. No. A17035

Encl: a/a













BLB LIMITED (CIN: L67120DL1981PLC354823) Regd. Office: H. No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 Email: infoblb@blblimited.com; Website: www.blblimited.com;

Tel: 011-49325600 INFORMATION REGARDING 42ND ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF BLB LIMITED

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022 and No. 10/2023 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020. 79 dated May 12, 2020, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/63 dated May 13, 2022 and No. SEBI/FO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 42rd Annual General Meeting ('AGM') of BLB Limited (the 'Company') will be held at 12:30 p.m. (IST) or Tuesday, September 26, 2023 through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ('OAVM') facility provided by the National Securities Depositories Limited ('NSDL') to transact the businesses

that will be set forth in the Notice of AGM ("Notice") Members can attend and participate in the AGM ONLY through the VC/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the 42" AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 42nd AGM of the

Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

In accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice along with the Annual Report for the FY 2022-23 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agents ('Registrar')/ Depository

Participants ('DPs'). As per the MCA Circulars and SEBI Circulars no physical/ hard copies of the Notice of 42nd AGM and Annual Report will be sent to any Member except to those shareholders who have requested for the physical copy of the Annual Report 2022-23. Members who have not yet registered their e-mail addresses can register the same as per following procedure: Members holding shares in physical form may get their e-mail ids registered by submitting the duly filled and signed Form-ISR:

(available on the website of the Company under download section) for updating their KYC details along with necessary documents to our RTA- M/s Abhipra Capital Limited at Abhipra Complex, A-387 Dilkhush Industrial Area, GT Karnal Road, Azadpur Delhi 110033 E-mail: rta@abhipra.com Members holding shares in dematerialized form may also temporarily

get their e-mail id registered by providing their Demat account details, Name, Client master copy, self-attested copy of PAN and Aadhar Card to the Company at csblb@blblimited.com or RTA a rta@abhipra.com. Please be informed that for permanent registration of e-mail address, the members are requested to register the same with their respective Depository Participants.

The login details for casting the votes through e-voting would be provided to the Members (holding shares in physical and dematerialized orm) at their e-mail addresses registered for this purpose. The Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM/ remote e-voting during the AGM will be

The e-copy of 42nd Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 along with the Notice of the 42rd AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.blblimited.com

Additionally, the Notice of AGM will also be available and may be accessed from the relevant section of the website of Stock Exchanges on which securities of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) at

www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars

and SEBI Circulars.

For BLB Limited

Place: New Delhi Date: August 22, 2023

Company Secretary

RE - eTENDER NOTICE

Brahmagiri Development Society invites Re-eTenders under EPC Contract Basis for executing the following Projects/Works. Setting up of DRY RENDERING PLANTS at Mundur in Palakkad (eTender ID: 2023 BDSW 584843 2) and at Sulthan Bathery in Wayanad (eTender ID: 2023 BDSW 584844 2). Setting up of BREEDER FARM AND HATCHERY COMPLEX at Kottuthara in Palakkad (Pack-1 eTender ID: 2023 BDSW 585365 2, Pack-2 eTender ID: 2023 BDSW 585368 2 and Pack-3 (eTender ID: 2023 BDSW 585369 2). Last Date for Bid Submission: 07.09.2023. Sd/-CEO-BDS For more details please logon to www.brahmagiri.org

Authorized Signatory

YUKEN YUKEN INDIA LIMITED

Regd. Office: No.16-C, Doddanekundi Industrial Area, II Phase, Mahadevapura, Bengaluru - 560 048.Tel +91 9731610341 Email: vignesh.p@yukenindia.com; Website: www.yukenindia.com CIN: L29150KA1976PLC003017

NOTICE

NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 14th September, 2023 at 10.30 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as mentioned in the 47th AGM Notice dated 29th May, 2023 without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular No.14/2020 dated 8" April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13" April, 2020 and Circular 02/2021 dated 13" January, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copies of the Notice of the 47" AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent on 21" August, 2023 to all those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants as on 11" August, 2023. Notice of the AGM and 47th Annual Report of the Company are available on the website of the Company https://www.yukenindia.com/report-result/ and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange India Limited (NSE) at www.nseindia.com. The dispatch of the Notice of the AGM along with Annual Report through emails has been completed on 21' August, 2023.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing its Members remote e-voting facility to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of KFin Technologies Limited ("remote e-voting"). All the Members are hereby informed that:

- Members may attend the 47" AGM through Video Conferencing "VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") at https://emeetings.kfintech.com by using their remote e-voting credentials. The instructions for participating through VC and the process of E-voting are provided in the Notice of the 47"AGM.
- 2. Cut-off date is 06th September, 2023 for determining the name of members eligible for E voting and dividend on equity shares, if declared at the ensuing AGM.
- E-voting shall commence on 09th September, 2023 at 09.00 AM (IST) and ends on 13th September, 2023 at 5:00 PM (IST). During this period, Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e., 06th September, 2023 may cast their vote electronically as instructed in the
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- In case of any queries pertaining to e-voting or any technical assistance or IT support for participation in the AGM through VC/OAVM may contact Mr. Premkumar maruturi- Senior Manager Corporate Registry, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone No. 040-67161500/1509, toll free No. 1-800-3094-001 or write to einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com
- 6. Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 07th September, 2023 to 14th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of dividend if approved at the ensuing AGM.

CPRANGACHAR

By Order of the Board of Directors



Place: Mumbai

Date: 22.08.2023

AGM. Shareholders may note the below information:

शिपिंग कॉपेरिशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शिपिंग हाउस, 245, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021 दूरभाष: 91-22-2202 6666 • फैक्स: 91-22-2202 6905 • ईमेल: cmdoffice@scilal.com

Web: www.scilal.com • CIN: U70109MH2021GOI371256 Shipping Corporation of India and Assets Limited (A Government of India Enterprise)

Registered Office: Shipping House, 245, Madame Cama Road, Mumbai - 400021 Tel.: 91-22-2202 6666 • Fax: 91-22-2202 6905 • Email: cmdoffice@scilal.com

oğu ğilmeri Azadika

GLOBAL MARITIME

INDIA SUMMIT 2023

Web.: www.scilal.com • CIN: U70109MH2021GOI371256

NOTICE OF 2nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

It is hereby informed that 2nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shipping Corporation of India

Land and Assets Limited will be held on Friday, 15th September, 2023 at 1400 hours IST through Video

Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the businesses set out in the Notice of

- Date of e-Dispatch: Electronic copies of Notice of 2nd AGM along with Annual Report of FY 2022-23 have been sent through electronic mode on 21.08.2023 to those Members whose email ids are registered with RTA/ Depositories as on 11.08.2023. Notice of 2nd AGM along with Annual Report of FY 2022-23 is also available on www.scilal.com and www.evoting.nsdl.com
- 2 The Remote e-Voting period commences from Tuesday, 12.09.2023 at 9.00 AM and ends on Thursday, 14.09.2023 at 5.00 PM.
- 3 Cut-off-date for the purpose of eligibility for Remote e-Voting is Friday, 08.09.2023.
- Resolutions set out in the Notice of 2rd AGM through the services provided by NSDL. During this period. Members holding shares either in physical/dematerialized mode as on Friday, 08.09.2023 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person acquiring shares after the dispatch of notice of AGM but holding shares as on cut-off date, may

4 The Company is providing remote e-Voting facility to its Members to cast vote electronically for the

visit SCILAL's website www.scilal.com under 'Investors → Annual Reports' section to view Notice of 2rd AGM along with Annual Report of FY 2022-23. Such person may also obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com on or before cut-off date and avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM. Physical copy of the aforesaid documents may be sent on request of any such Member made at cs@scilal.com. In case of any queries or issues regarding e-voting/assistance before or during AGM, you may refer the Notice of 2nd AGM or contact Pallavi Mhatre at 022 - 2499 7000 and 022-4886 7000 or email at evoting@nsdl.co.in

- Member will be provided with a facility to attend AGM through VC/OAVM through NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under Shareholders/ Members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will be displayed.
- For detail information regarding Manner of E-voting, updating Email id/Bank Account, Instructions for joining AGM through VC, you may visit www.scilal.com under "Investors → Information for Shareholders'

For Shipping Corporation of India Land and Assets Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Shri Mohammad Firoz



JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED

CIN: L24114MH1985PLC035564 Registered Office: 301, Sumer Kendra, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400 018 Tel No.: 022 4938 4200/4300 +Fax No.: 022 3042 3434 Website: www.jaysynth.com •E-mail Id: jsec@jaysynth.com

NOTICE OF 38™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 38" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jaysynth Dyestuff (India) Limited is scheduled to be held on Saturday, 16th September, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020, dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14" December, 2021, Circular No. 02/2022 dated 05" May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28" December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 including the Notice of 38" AGM of the Company, are being sent to the Members whose email ids are registered with the Company/Depository Participants. The Annual Report along with Notice of 38" AGM of the Company is available on the website of the Company at www.jaysynth.com and shall also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members who wish to inspect the statutory documents or relevant documents referred to in the Notice can send an email to jsec@jaysynth.com upto the date of the AGM.

The Members of the Company who are holding Shares in physical form or who have not registered their email id with the Company, can cast their vote through remote e-voting which commences on Tuesday, 12" September, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 15" September, 2023 (5.00 p.m. IST) or through e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 38" AGM.

The procedure for registration of - (i) email id to receive future documents through email and (ii) Bank account details to receive future dividends directly in the Bank Account:

- a) Members holding shares in Dematerialised mode are requested to register their email id and Bank Account details with their respective Depository Participants.
- b) Members holding shares in physical form are requested to register their email id and Bank Account details by sending a written request at the Registered Office of the Company or by sending an E-mail to rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 09th September, 2023 to Saturday, 16" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 38" AGM and payment of dividend on equity shares for the financial year 2022-23. The dividend of ₹0.25 paise per equity share having face value of ₹1/- each recommended by the Board, if approved, at the 38" AGM shall be paid to those Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on Record Date i.e. Friday, 08th September, 2023 and to those Members who hold shares in physical form and whose name appears on the Register of Members of the Company as on that

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

or contact at toll free no. 1800 22 55 33 In case the Members have any queries or issues regarding login/e-voting during the AGM, you can write an email to

instameet@linkintime.co.in or call 022-4918 6175.

Place: Mumbai Date: 21" August, 2023

Riddhi Manoj Patel Company Secretary and Compliance Officer Membership No. A50707

For: Jaysynth Dyestuff (India) Limited

INDIA PO NER India Power Corporation Limited

CIN: L40105WB1919PLC003263 [Formerly DPSC Limited]

Plot X1- 2&3, Block-EP, Sector-V, Salt Lake, Kolkata -700 091, Tel.: + 91 33 6609 4300/08/09/10 Fax: + 91 33 2357 2452, E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

PUBLIC NOTICE OF THE 103RD ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 103rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Power Corporation Limited ("Company") will be convened on Friday, 22nd September, 2023 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder ("Act"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the provisions of the Ministry of Corporate Affairs General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 5th January, 2023 ("SEBI

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice convening the 103rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s) ("DP"). The said documents will also be available on the Company's website www.indiapower.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited and Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and www.msei.in respectively. The Notice convening the 103rd AGM shall also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency providing e-voting facility) at www.evoting.nsdl.com.

Members can participate in AGM through VC / OAVM facility only. The detailed instructions for attending the AGM will be provided in the Notice convening the AGM. The Company will be providing the facility to the Members to cast their vote electronically ("remote e-voting") in respect of the business to be transacted at the AGM. In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. The Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. Detailed procedure for remote evoting before the AGM and e-voting at the AGM will be provided in the Notice convening the AGM. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or e-voting at the AGM by following the manner provided in the Notice convening

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 25th May, 2023 has recommended a dividend of Re. 0.05/- (Five paise only) per equity share of face value of Re. 1/- each for the financial year ended 31st March, 2023. The dividend, as recommended by the Board, if approved at the ensuing 103rd AGM, will be paid to eligible Members of the Company. Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Members who have updated their bank account details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrants / demand drafts / cheques will be dispatched to the Members at their registered address. To avoid delay in receiving the dividend, Members are requested to register/update their bank details.

The Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, mandates that Dividend paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of Members. The Rate of Tax Deducted at source (TDS) are subject to provisions of Section 206AB of the Act (effective from 1st July, 2021) which introduced special provisions for TDS in respect of taxpayers (referred to as 'specified persons'). The Company shall therefore be required to deduct TDS at the time of making the payment of Dividend. To enable the Company to determine the appropriate TDS rates as applicable, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN with the Company / RTA (in case of shares held in physical mode) and DP (in case of shares held in demat mode) by sending the relevant documents through email at ipclagm2023@indiapower.com and / or rta@cbmsl.com. The detailed process along with the relevant documents to be submitted to the Company is available on the Company's website www.indiapower.com and can be assessed at the link https://www.indiapower.com/wpcontent/uploads/2023/08/TDS-ON-DIVIDEND-PAYMENT-2023-24.pdf

Shareholders who wish to register their email address / bank account mandate may follow the below instructions: . Members holding shares in physical mode are requested to register / update their details by sending in

- original to the RTA duly filled Form ISR-1 along with the supporting documents on or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, 25th August, 2023. The said form is available on the website of the Company at the link https://www.indiapower.com/wp-content/uploads/2021/12/Form-ISR-1_p.pdf
- . Members holding shares in demat mode are requested to register / update their e-mail address with their respective DPs.

By order of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer ACS No.: 15576

*FINANCIAL EXPRESS financialexp.epap.in

HDFC MUTUAL MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 e-mail: hello@hdfcfund.com . Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Option of HDFC Arbitrage Fund, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed Thursday, August 24, 2023 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s) Amount of Face Value Net Asset Value ("NAV") as on Distribution (₹ per unit) August 18, 2023 (₹ per Unit)# (₹ per unit) HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -Regular Plan - Normal IDCW Option 10.617 (Payout and Reinvestment) HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -Direct Plan - Normal IDCW Option 11.096 (Payout and Reinvestment) 0.040 10.00 HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -Regular Plan - Monthly IDCW Option 11.008 (Payout and Reinvestment) HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan -Direct Plan - Monthly IDCW Option 10.767 (Payout and Reinvestment)

Amount of distribution per unit will be the lower of that mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date)

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unit holders are advised to note that for redemptions and IDCW declared with effect from January 13, 2023, as per amended SEBI regulations, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund) Place: Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Date : August 21, 2023

https://www.evoting.nsdl.com/

evoting@nsdl.co.in.

Place: Gurugram

Date: August 21, 2023



Global Health Limited

(formerly known as Global Health Private Limited)

CIN: L85110DL2004PLC128319 Regd. Office: Medanta Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi 110024, India Corp. Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana 122001, India

Tel: +91 124 483 4060 | E-mail: compliance@medanta.org | Website: https://www.medanta.org

NOTICE TO THE MEMBERS OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 20th September, 2023 at 12 Noon through Video Conferencing ('VC') Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 respectively (collectively referred to as ('MCA Circulars') and SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 January 5, 2023 ('SEBI Circulars') to transact the business as set out in the Notice. The deemed venue for the AGM will be the Registered Office of the Company i.e. Medanta–Mediclinic, E-18, Defence Colony,

New Delhi -110024. In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 will be sent through e-mail to those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or their Depository Participants ('DPs'). The aforesaid documents shall also be available on the website of the Company at https://www.medanta.org/investor-relation/ on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com/index.html and https://www.nseindia.com/ and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its Members to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Members holding shares either in Certificate form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM. The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM. Detailed Procedure for remote e-voting and e-voting and participation in AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of AGM.

In view of the above, Members holding shares in Certificate form and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending in duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/ updation thereof), to the RTA address i.e. Kfin Technologies Limited, Selenium, Tower-B, Plot 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500032, Telangana or by an email to einward.ris@kfintech.com from their registered e-mail id. The forms for updation of PAN, KYC, bank details and Nomination viz, Forms ISR-1,

Further, Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses are requested to register/update their email addresses with their respective DP, as per process advised by them.

In case of any queries related to voting by electronic means, please refer the frequently asked questions for

shareholders and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/

or call on Nos. 022 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager at

ISR-2, ISR-3, SH-13 are available on the Company's website i.e. https://www.medanta.org/investor-relation/.

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer



Date: 21.08.2023

Place: Bangalore

Managing Director

Place : Kolkata

Date : 22nd August, 2023

For India Power Corporation Limited **Prashant Kapoor**

नियम 41 के मामले में मैसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन एनर्जी

प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तसका पंजीकृत कार्यालय : हवां फ्लोर, टॉवर सी बिल्डिंग नं ८, औएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम—122002, हरियाणा, इंडिया, में है,

तम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है वि तम्पनी 27 जुलाई. 2023 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट प्राम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित

गरिवर्तन ∕ स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो. तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठमूमि को दर्शाते हुए एव शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्ये मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 के पास इस मुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर ज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी वं नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :-5वां फ्लोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. ८. डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया,

कृत्ते आवेदक की ओर से तिथि : 21 अगस्त 2023 डीआईएन : 09521193

संजीव शर्म

पंजीकृत कार्यालय का पुरा पता : 5वां पलोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया 'फार्म नं. आईएनसी—25ए" **भेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय**

की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में मैसर्स ग्रीन इंक्रा क्लीन रीन्यूएबल एनजी लिमिटेड जेसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां पलोर, टॉवर सी,

बिल्डिंग नं ८ खिएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम—122002, हरियाणा, इंडिया, में हैं,

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

हम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

जाम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी २८ जुलाई, २०२३ को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पर्न को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षा बनाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित

परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठमूमि को दर्शाते हुए एव शपथपत्र के साथ अपनी आपेत्ति व्यक्तिगत रूप से तमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्ये मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से वौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी वे नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :-5वां पलोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया, करो आवेदक की ओर से

तिथि : 21 अगस्त 2023 ढीआईएन : 09521193 पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां फ्लोर, टॉवर

सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया "फार्म नं. आईएनसी—25ए"

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन एसेट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां फ्लोर, टॉवर र बिल्डिंग नं ८. खैएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002

हरियाणा, इंडिया, में है, आम जनता को एतदहारा सुचित किया जाता है वि कम्पनी 27 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी अतिविशिष आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पर्न को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेतु ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी

अधिनियम्, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्टभृमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित भेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र,

बी-2 विंग, द्रशरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर जि सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :-5वां पलोर, टॉवर सी. बिल्डिंग नं. 8. डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया, कृते आवेदक की ओर र

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 21 अगस्त 2023

निदेशक डीआईएन : 09521193 पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां पलोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

संजीव शर्मा

Emedanta ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड

(पूर्व का ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: L85110DL2004PLC128319

पंजीकृत कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024, भारत

कॉर्पोरेट कार्यालयः मेदांता - द मेडिसिटी, सेक्टर - 38, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत

फोन:+91 124 483 4060 | ई-मेल: compliance@medanta.org | वेबसाइट: https://www.medanta.org

19वीं वार्षिक आम बैठक के सदस्यों को सूचना

एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र'

संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के सभी लागू

प्रावधानों, और सेबी द्वारा इसके परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020,

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/

CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में नोटिस में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए कंपनी के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम

बैठक (एजीएम) बुधवार, 2 सितंबर, 2023 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्ञल साधन

(ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात मेदांता-

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की

सुचना कंपनी के उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.medanta.org/investor-relation/, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com/index.html और https://www.nseindia.com/ पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सर्टिफिकेट फॉर्म या डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान

उपरोक्त को देखते हुए सर्टिफिकेट फॉर्म में शेयर रखने वाले और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर -1 (पैन, केवाईसी विवरण या परिवर्तन दर्ज करने के लिए फॉर्म) आरटीए यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टावर-बी, प्लॉट 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्क्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी 500032, तेलंगाना के पास भेजकर या अपने पंजीकृत ई-मेल से

einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा भेजकर अपनी ई-मेल आईडी अपडेट करें। पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और

नामांकन को अद्यतन करने के लिए फॉर्म अर्थात फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13 कंपनी की

इसके अलावा, डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे

अनुरोध है कि वे उनके द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते को अपने संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत/अपडेट

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया https://www.evoting.nsdl.com/ के

डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध frequently asked questions for shareholders और e-voting user manual देखें

या नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे - वरिष्ठ प्रबंधक को

वेबसाइट यानी https://www.medanta.org/investor-relation/ पर उपलब्ध हैं।

निशांत गरुड़

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दीनानाथ साह, पुत्र मोहन साह, पताः मकान नं. सी-322/2, अगर नगर, प्रेम नगर-3, किरारी, सुलेमान नगर, दिल्ली, ने FIR no. 90/2018 U/s 283/290 IPC थाना करोल बाग, दिल्ली के एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त साधारण सर्क्युलर तिथि 28 दिसम्बर, 2022 तथा किसी सामूहिक स्थल पर सदस्यों की शारीरिक दीनानाथ साह मिल नही रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया उपस्थिति के बिना एजीएम के आयोजन के लिये सेबी गया है कि उक्त दीनानाथ साह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से सर्क्युलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/सीआईआर/2023/4 तिथि 5 जनवरी, 2023 के बचन0े के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके जाती है कि FIR no. 90/2018 U/s 283/290 IPC थाना करोल बाग, अंतर्गत निर्मित नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में मैक्सहाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के दिल्ली के उक्त अभियुक्त दीनानाथ साह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को 12.00 बजे दोपहर में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो 13.10.2023 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) सुविधा द्वारा

> सुश्री शिप्रा घनकर, महानगर दण्डाधिकारी -01, केन्द्रीय जिला, कमरा नं. 180, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

बीएलबी लिमिटेड (CIN: L67120DL1981PLC354823) रजि. कार्यालयः मकान नं. 4760-61/23, तीसरी मंजिल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 ईमेलः infoblb@blblimated.com (वेबसाइट : www.blblimated.com; फ़ोनः 011-49325600

बीएलबी लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संबंध में जानकारी

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्य 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जनवर्ष 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 एवं क्रमांक 10/2022 दिनांक 2 दिसम्बर 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी सर्कुलर') द्वार जारी परिपत्र संख्या—सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / ए / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमर्ड 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021 संख्या सेबी / एचअ /सीएफडी /सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 सेबी पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4, दिनांक जनवरी 5, 2023 के साध पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 201 के अनुपालन में, बीएलबी लिमिटेड ('कंपनी') की 42वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी एजीएम ("नोटिस") की नोटिस में निर्धारित किए गए व्यवसायों को लेन-दे करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ('ओएवीएम') स्विधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सक

हैं, जिसका विवरण कंपनी द्वारा 42वें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की 42वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी १अधि नियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिन एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से भेजा जाएग जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('रजिस्ट्रार') / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुसार, 42वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट व नोटिस की कोई भी भौतिक / हार्ड कॉपी उन शेयरधारकों को छोडकर किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पत पंजीकृत नहीं किया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इसे पंजीकृत क

1. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपन केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म-आईएसआर1 (कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड अनुभाग के तहत उपलब्ध) को हमारे आरटीए- मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, अभिप्र कॉम्प्लेक्स, ए-387, दिलखुश औद्योगिक क्षेत्र,जीटी करनाल रोड, आजादपू दिल्ली 110033,ई-मेलः rta@akhipra.com को जमा करके अपनी ई-मेत आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं।

डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डीमैट खाते व विवरण, नाम, क्लाइंट मास्टर कॉपी, पैन और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति कंपनी को csblb@blblimited.com अथवा rta@akhipra.com प आरटीए को प्रदान करके अस्थायी रूप से अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। कृपया सूचित रहें कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण व लिए सदस्यों से अनरोध हैं कि वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागिय के साथ पंजीकृत करें। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगि विवरण, सदस्यों (भौतिक और अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले) को इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत उनके ई-मेल पते पर प्रदान किया जाएगा। कंपनी बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविध भी प्रदान करेगी। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान रिमोट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट की ई-प्रति साथ 42वीं एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.blblimited.com पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, एजीएम का नोटिस उन वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगा औ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट के संबंधित अनुभाग से प्राप्त किया जा सकत है, जिस पर कंपनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंड ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) क्रमश

ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में प्रदान की जाएगी

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22 अगस्त, 2023

मेडिक्लिनक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 होगा।

https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होंगे।

www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध होगा। यह विज्ञापन एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

कृते बीएलबी लिमिटेड

DP/9294/CD/2023

वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से नियत समय पर कम्पनी के उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट/रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि ईमेल द्वारा कम्पनी की सूचना प्राप्त करने का चयन कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धत्ता का समर्थन करें। डिमैट पद्धति मे शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत कराऐं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के

मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्या.: एसडी-65, पीतमपुरा,

नई दिल्ली- 110034

CIN: L67120DL1981PLC179487,

टेली.: 011-2731 4646

ई-मेलः cs@maxheights.com,

वेबसाईटः www.maxheights.com

42वीं वार्षिक आम सभा की सूचना जो

विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल

माध्यमों से आयोजित होगी।

सदस्यों की बयालिसवीं (42वीं) वार्षिक आमसभा

आयोजित होगी जिसमें 42वीं एजीएम की सूचना में

निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित

किया जायेगा।

admin.skylinerta.com पर कम्पनी के आरटीए स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना ईमेल पता अद्यतन करा लें। सदस्यगण ध्यान रखें कि एजीएम सूचना तथ वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 कम्पनी की वेबसाईट www.maxheights.com, स्टॉक एक्सचैंज www.bseindia.com तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी

साथ एजीएम सूचना की प्रति प्राप्त करने के लिये

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों को कम्पनी ई-वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। जीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग र्क विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई हैं वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने वाले

सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। मैक्सहाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तिथि: 21 अगस्त. 2023 काजल गोयल

अनपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं

तिथि: 22.8.2023 कंपनी अधिनियम 2013 (**"याचिका")** की धारा 230 स्थानः दिल्ली DIN: 07217426 से 232 के तहत प्राइमसॉफ्ट विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") और "फार्म नं, आईएनसी—25ए" गदाधारा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय, ('हस्तांतरणकर्ता कंपनी') और आँगन कॉमर्स उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरणी कंपनी") उत्त कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा 24 जुलाई 2023 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंक्रा कॉर्पोरेट सोलर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां फ्लोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम—122002, हरियाणा, इंडिया, में है,

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक

उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा

(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के

नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के

मामले में

<mark>ओसिअन ड्रीम होम्ज प्राईवेट लिमिटेड</mark>, पंजीकृत कार्यालय

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा.

क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत

कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने

के लिए 17.8.2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में

पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ

एसोसिएशन के क्लॉज II (अवस्थिति क्लॉज) में परिवर्तन

की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के

अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-2

पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र

दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में

आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की

प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक

शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या

कृते, ओसिअन ड्रीम होम्ज

प्राईवेट लिमिटेड

(सुमित कासना)

हस्ता./

जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें:

करने का प्रस्ताव करती है।

: ई-43/1, ओखला फेज II, नई दिल्ली-110020

"फार्म नं. आईएनसी—25ए"

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय,

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के

नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंक्रा सोलर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

जेसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां फ्लोर, टॉवर सी

बिल्डिंग नं. ८. खीएलएफ साईबर सिटी, गरुग्राम—122002.

गम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है f

हम्पनी 27 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट

गम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी

ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षा

ानाने हेत ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए

प्ररोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम्

2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

हेई मी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति

ों कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो व

रपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति व

ष्ठभमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपर्न

पत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है र

जीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉपीरे

हार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी−2 विंग, दूसरा तल, ¹

रीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, न

देल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन व

तेथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और

इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकत

5वां पलोर, टोंवर सी, बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफ साईब

सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया,

पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां पलोर, टॉवर

'फार्म नं. आईएनसी—25ए'

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के

नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंक्रा विंड एनर्जी

प्रोजेक्ट् लिमिटेड

जेसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां पलोर, टॉवर सी

बिल्डिंग नं ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम—122002,

प्राम जनता को एतदहारा सचित किया जाता है कि

कम्पनी २७ जुलाई, २०२३ को आयोजित अपनी अतिविशिष

आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी

को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्ष

ानाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए

उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम

2013 की घारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

कोई भी ब्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तवित परिवर्तन / स्थिति

अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की

क्टभमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी

प्रापत्ति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है य

गंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट

दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नः

देल्ली–110003 के पास इस सचना के प्रकाशन के

तिथि से चौदह दिनों के मीतर भेज सकता है और

इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचेवर्णित पंजीकृत

5वां फ्लोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफ साईबर

सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया,

पंजीकत कार्यालय का पूरा पता : 5वां फ्लोर, टॉवर

सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी,

गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

कृत्ते आवेदक की ओर से

डीआईएन : 07298251

हर्ष बंसल

निदेशक

कार्यालय में भी भेजी जानी चाडिए :--

तिथि : 21 अगस्त 2023

कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दसरा तल

कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह

करने की इच्छ्क है।

सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी,

गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

कृते आवेदक की ओर र

ढीआईएन : 05270854

हस्ता /

सिद्धार्थ सेनगुप्ता

त्रर्यालय में भी मेजी जानी चाहिए :-

तिथि : 21 अगस्त 2023

रेवाणा, इंडिया, में है,

oरने की इच्छक है।

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी २७ जुलाई, २०२३ को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम बनाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

करने की इच्छक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो. तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पष्ठभमि को दर्शाते हए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपेति व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चीदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :--

5वां फ्लोर. टॉवर सी. बिल्डिंग नं. 8. डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया, कृत्ते आवेदक की ओर से अंकर राजन निदेशक

तिथि : 21 अगस्त 2023 स्थान : गुरुग्राम डीआईएन : 01737075 पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां पलोर, टॉवर सी. बिलिडंग नं. 8. डीएलएफ साईबर सिटी. गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

याचिकाकर्ताओं के वकील दिनांक : 22.08.2023 सीएस राघव अग्रवाल स्थान: नई दिल्ली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेंक्रेटरी कार्यालय संख्या 822, वेव, सिल्वर टॉवर सैक्टर-18, नोएडा यूपी-201301

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई

दिल्ली पीठ के समक्ष नई दिल्ली

कंपनी आवेदन संख्या २७३ / एनडी / २०२३

कंपनी याचिका संख्या

(सीएए) 48 / एनडी / 2023 में

के साथ संबंधित

कंपनी आवेदन संख्या

(सीएए) 24 / एनडी / 2023

कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में

घारा 230 से 232 और समामेलन की

योजना के मामले में

प्राइमसॉफ्ट विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी / याचिकाकर्ता सं. 1

[सका पंजीकृत कार्यालय है: 304, तीसरी मंजिल

गदाधारा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी / याचिकाकर्ता सं. 2)

इसका पंजीकृत कार्यालय है : 304, तीसरी मंजिल

आँगन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

(हस्तांतरणी कंपनी / याचिकाकर्ता सं. 3)

इसका पंजीकृत कार्यालय है : 304, तीसरी मंजिल

याचिका पर सुनवाई की सार्वजनिक सूचना

और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों वे

बीच व्यवस्था और समामेलन ("योजना") की

योजना को मंजूरी देने के लिए एक याचिका प्रस्तुत

की गई थी, और उक्त याचिका योजना के अनुमोदर

के लिए 04 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय कंपनी विधि

अधिकरण, दिल्ली की दिल्ली पीठ के समक्ष अंतिम

याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक

किसी भी व्यक्ति को आवेदक के वकील को नीचे दिए

गए पते पर, अपने नाम और पते के साथ उसके या

उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित उसके इरादे की एक

मुचना भेजनी चाहिए, ताकि आवेदक के अधिवक्ता

(ओं) और एनसीएलटी, दिल्ली पीठ को, 6, 7 वीं और

8 वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, ब्लॉक

नंबर 3, नई दिल्ली, दिल्ली– 110003 को याचिका

की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन

पहुंच जाए। जहां वह याचिका का विरोध करन

चाहता है, विरोध का आधार या उसके हलफनामें की

एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

याचिका की एक प्रति आवेदक के वकील द्वारा जिर

किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता हो, उसके निर्धारित

शुल्क के भूगतान पर प्रस्तुत की जाएगी।

सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश –

भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश —

भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश —

नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली –110048

नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली -110048

नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली –110048

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR

OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

② Zaggle^{*}

code to view the DRHP)

'फार्म नं. आईएनसी--25ए'

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय,

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कम्पनी (गतन) नियम, 2014 के

नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंक्रा विंड एनर्जी एसेट्स लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां फ्लोर, टॉवर सी

बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम-122002,

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि

कम्पनी 28 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट

आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पर्न

को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम

बनाने हेत ऐसे बदलाव को प्रमावी करने के लिए

उपरोक्त कथित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम्

2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

कोई भी ब्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / रिबर्ति

से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो तो वह

रंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट

कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरा तल

दिल्ली—110003 के पास इस सचना के प्रकाशन की

तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और

इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकत

व्यां पलोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफ साईबर

कृत्ते आवेदक की ओर से

अंकर राजन

निदेशक

सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया,

पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां पलोर, टाँव्र

"फार्म नं. आईएनसी—26ए"

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय,

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के

नियम 41 के मामले में

मैसर्स ग्रीन इंक्रा क्लीन हाइब्रिड

एसेट्स लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 5वां फ्लोर, टॉवर सी,

बिल्डिंग नं ८, डीएलएफ साईबर सिटी, गुरुग्राम—122002.

आम जनता को एतदहारा सुचित किया जाता है कि

कम्पनी 28 जलाई. 2023 को आयोजित अपनी अतिविशिष्ट

आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पर्न

को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए सक्षम

बनाने हेत् ऐसे बदलाव को प्रभावी करने के लिए

उपरोक्त केंबित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम,

2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित

परिवर्तन / रिथति से कोई भी हित प्रभावित होने की

संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित

शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति व्यक्तिगत रूप से

जमा कर सकता है या पंजीकृत ढाक द्वारा संबंधित

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र,

बी—2 विंग, दसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस

सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर

भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के

5वां पुलोर, टॉवर सी, बिल्डिंग नं. ८, डीएलएफु साईबर

सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया,

पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : 5वां फ्लोर, टॉवर

सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी,

गुरुग्राम–122002, हरियाणा, इंडिया

कृत्ते आवेदक की ओर से

डीआईएन : 09521193

हस्ता/-

संजीव शर्मा

नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :

सी, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साईबर सिटी,

गुरुग्राम-122002, हरियाणा, इंडिया

कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :-

तिथि : 21 अगरत 2023

हरियाणा, इंडिया, में है,

करने की इच्छक है।

तिथि : 21 अगस्त 2023

स्थान : गुरुग्राम

दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नर्

हरियाणा, इंडिया, में है,

ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED

The Company was incorporated as 'Zaggle Prepaid Ocean Services Private Limited' at Hyderabad as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated June 2, 2011 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad. Subsequently, the Company was converted into a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a special resolution passed by the Shareholders at the EGM held on August 22, 2022 and consequently, the name of the Company was changed to 'Zaggle Prepaid Ocean Services Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 13, 2022 was issued by the Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad (the "RoC"). For details of the change in the name and the registered office of the Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 161 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 19, 2022. ("DRHP")

Registered Office: 301, III Floor, CSR Estate, Plot No.8, Sector 1, HUDA Techno Enclave, Madhapur Main Road, Hyderabad, Rangareddi - 500 081, Telangana, India: Telephone: +91 40 2311 9049 Corporate Office: Unit no. 602 and 603, 6th Floor, Hyde Park, Opposite Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Andheri East, Mumbai - 400 072, Maharashtra, India; Telephone: +91 22 4879 4879 Contact Person: Hari Priya, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 40 2311 9049; E-mail: haripriya.singh@zaggle.in; Website: www.zaggle.in Corporate Identity Number: U65999TG2011PLC074795

NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES BEARING FACE VALUE OF ₹1 EACH ("EQUITY SHARES") OF ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES BY THE COMPANY AGGREGATING UP TO ₹4,900 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,526,316 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,529,677 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY RAJ P NARAYANAM AND UP TO 1,529,677 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY AVINASH RAMESH GODKHINDI (TOGETHER REFERRED TO AS THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 2,830,499 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[◆] MILLION BY VENTUREAST PROACTIVE FUND LLC, UP TO 2,046,026 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY GKFF VENTURES, UP TO 538,557 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY VENTUREAST SEDCO PROACTIVE FUND LLC AND UP TO 118,040 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO TO TO MILLION BY VENTUREAST TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED (ACTING ON BEHALF OF VENTUREAST PROACTIVE FUND) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 1,765,540 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[◆] MILLION BY ZUZU SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED (REFERRED TO AS THE "CORPORATE SELLING SHAREHOLDER"), UP TO 91,800 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[◆] MILLION BY KOTESWARA RAO MEDURI AND UP TO 76,500 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY MALVIKA PODDAR (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "INDIVIDUAL SELLING SHAREHOLDERS" AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS AND CORPORATE SELLING SHAREHOLDER ARE REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES CUMULATIVELY OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS. THE "OFFERED SHARES")

Potential bidders may note the following:

The Company, in consultation with the BRLMs, has undertaken the Pre-IPO Placement of 1,524,390 Equity Shares at an issue price of ₹164 per Equity Share (including a premium of ₹163 per Equity Share) for an amount aggregating to ₹250.00 million, by way of a private placement in accordance with Section 42, 62 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 and Companies (Share Capital and Debentures) Rule, 2014, each as amended.

The Pre-IPO Placement has been undertaken pursuant to the approval of the Board and Shareholders in their meeting held on August 10, 2023 and August 11, 2023, respectively The Company has allotted Equity Shares in the Pre-IPO Placement pursuant to the resolution passed by the Board in its meeting held on August 21, 2023, in the manner as set forth below:

Number of Equity Shares alloted Name of the allottee Date of allotment Issue price per Equity Share (₹) Total consideration (₹ in million)

August 21, 2023 VALUEQUEST S C A L E FUND 1,524,390 The abovementioned allottee is not, in any manner, connected with the Company, the Promoters, the Promoter Group, the Directors, the Key Managerial Personnel, the subsidiary (i.e., Zaggle Technologies Limited) and their respective directors and key managerial personnel. As on date, the Company does not have any group companies (as defined in the Securities and Exchange Board of

India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended This advertisement is issued in accordance with SEBI's correspondence dated July 4, 2023.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE OFFER
<i>O</i>ICICI Securities	equirus	IIFL SECURITIES	JM FINANCIAL	▲ KFINTECH
ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Telephone: + 91 22 6807 7100 E-mail: zaggle.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com Contact person: Harsh Thakkar/ Sumit Singh SEBI registration no.: INM000011179	Equirus Capital Private Limited 12° Floor, C Wing, Marathon Futurex N M Joshi Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013 Maharashtra, India. Telephone: +91 22 4332 0736 E-mail: zaggle.ipo@equirus.com Website: www.equirus.com Investor grievance e-mail: investorsgrievance@equirus.com Contact person: Malay Shah SEBI registration no.: INM000011286	IIFL Securities Limited 10° Floor, IIFL Centre Kamala City, Senapati Bapat Marg Lower Parel (West) Mumbai - 400 013 Maharashtra. India Telephone: +91 22 4646 4728 E-mail: zaggle.ipo@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Investor grievance e-mail: ig.ib@iiflcap.com Contact person: Pawan Jain/ Shirish Chikalge SEBI registration no.: INM000010940	JM Financial Limited 7° Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6630 3030 E-mail: zaggle.ipo@jmfl.com Website: www.jmfl.com Investor grievance e-mail: grievance.ibd@jmfl.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI registration no.: INM000010361	KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) Selenium, Tower-B, Plot 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 E-mail: zaggle.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Contact person: M Murali Krishna SEBI registration no.: INR00000022

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad Date: August 21, 2023

Hari Priya Company Secretary and Compliance Officer

ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on December 20, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and as well as on the websites of the BRLMs, i.e., ICICI Securities Limited, Equirus Capital Private Limited, IIFL Securities Limited and JM Financial Limited at www.icicisecurities.com, www.equirus.com, www.iiflcap.com and www.jmfl.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 26 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Adfactors 248

स्थानः गुरूग्राम दिनांक: 21 अगस्त,2023

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com